


INDIA GLYCOLS LIMITED										
Regd. Office: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244 713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand) Phones: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535 Email: compliance.officer@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com • CIN: L24111UR1983PLC009097										
Audited Financial Results for the Quarter & Year ended March 31, 2025										
(₹ In Crore, except as stated)										
Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED				
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended		
		31.03.2025 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations	2,189.59	2,429.58	2,041.22	9,052.37	7,944.50	2,190.24	2,429.83	2,043.73	9,053.50
2	Profit before Interest, depreciation and Tax (EBDITA)	145.24	129.98	109.79	521.34	423.48	147.53	129.48	109.23	525.49
3	Net profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	68.12	58.45	51.13	241.78	202.05	70.41	57.94	50.56	245.92
4	Net profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	68.12	58.45	51.13	241.78	202.05	81.79	71.42	55.60	292.32
5	Net profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	50.35	43.84	37.74	180.38	151.73	64.02	56.81	42.21	230.92
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	49.37	43.88	37.82	179.51	151.92	63.26	56.39	42.07	229.62
7	Equity Share Capital	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96
8	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet				1,840.08	1,685.34			2,224.92	2,020.06
9	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualised) - Basic & Diluted (In ₹)	16.26	14.16	12.19	58.26	49.01	20.68	18.35	13.63	74.58
										55.87

for INDIA GLYCOLS LIMITED
Sd/-
U.S. BHARTIA
Chairman and Managing Director
DIN: 00063091

Place : Noida
Date : 16th May, 2025



L&T Technology Services

L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED

(A subsidiary of Larsen & Toubro Limited)
CIN: L72900MH2012PLC232169
Regd. Office: L&T House, N.M. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001
Tel: (91 22) 6892 5257, Fax: (91 22) 6752 5858
E-mail: investor@lts.com, Website: www.LTTS.com

NOTICE OF 13th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO - VISUAL MEANS, REMOTE E-VOTING & RECORD DATE

NOTICE is hereby given that the Thirteenth (13th) Annual General Meeting (AGM) of L&T Technology Services Limited will be held on **Monday, June 16, 2025** at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) read with the Rules made thereunder, General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with the circulars issued earlier on the subject by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI's circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 read with the circulars issued earlier on the subject by SEBI ("SEBI Circular") to transact the business set forth in the Notice convening the 13th AGM ("AGM Notice").

Electronic Dissemination of Notice & Annual Report - In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for FY 2024-25 will be sent through electronic mode to those Members, whose email addresses are registered with the Company/Company's Registrar & Share Transfer Agent/Depositories/Depository Participants. For Members whose email address is not registered, letter containing the exact link of the website where details of the Integrated Annual Report are hosted will be sent at the address registered in the records of the Company / Company's Registrar & Share Transfer Agent/ Depositories / Depository Participants.

The Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report shall also be made available on the Company's website at www.LTTS.com, website of the Stock Exchanges i.e. Bombay Stock Exchange Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on National Securities Depository Limited (NSDL) website at www.evoting.nsdl.com. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members participating through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. If your email address is already registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent/ Depositories / Depository Participants, login details for e-voting will be sent to your registered email address.

Member of registering email addresses and/or registering bank mandate to receive dividend through Electronic Clearing Service (ECS) -

Physical Holding	Register/update the details in prescribed Form ISR -1 and other relevant forms with Registrar and Transfer Agents of the Company, KFin Technologies Limited at einward.rs@kfinetech.com
Dematerialized Holding	Register/update the details in your demat account, as per the process advised by your Depository Participant.

E-Voting- The Company is providing the facility to the Members to cast their vote on the business set forth in the AGM Notice through electronic means including "Remote e-voting" (e-voting other than at the AGM). Detailed procedure for remote e-voting is outlined in the AGM Notice. The facility for e-voting will also be provided at the AGM and Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote at the meeting.

Dividend & Record Date - The Board of Directors at its meeting held on April 24, 2025, has recommended a Final Dividend of Rs. 38/- per equity share of face value of Rs. 2/- each for approval of the Members. The Record Date for determining the entitlement of Members to the Final Dividend for FY25 is fixed as **Friday, June 6, 2025**. The Final Dividend, if approved by the members at the AGM, shall be paid electronically to members as on the Record Date and who have updated their bank account details for receiving dividend through electronic means within 30 days of the AGM.

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 7, 2024, has mandated that with effect from April 1, 2024, dividend to security holders who are holding securities in physical form, shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after the shareholders furnish their PAN, contact details (postal address with PIN and mobile number), Bank Account details & Specimen Signature ("KYC").

Members who have not registered/ updated their PAN, KYC (including email, mobile number and bank account details) and Nomination details in respect of physical folios for receipt of dividend, are requested to register/update the same in the records of the Company/Depositories/RTA, as the case may be.

Tax on Dividend - Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the members w.e.f. April 1, 2020, and the Company is required to deduct tax deducted at source ("TDS") at the prescribed rates, as applicable, from dividend paid to the members. Accordingly, the final dividend for FY25, if approved by the Members at the 13th AGM, shall be paid after deducting TDS in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961. Further, the provision of Section 206AB of Income Tax Act, 1961 requires the Company to deduct tax at higher rate for specified person as defined under the provision of the said section.

To enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and/or update their residential status, PAN with their DPs for shares held in demat mode and with the Registrar and Transfer Agent on the link at <https://rs.kfinetech.com/form15> in case of shares held in physical form latest by 05.00 p.m. IST on **Friday, June 6, 2025**.

The TDS rate would vary depending on the residential status of the member and the documents submitted by them and accepted by the Company. Accordingly, the above-referred Final Dividend will be paid after deduction of TDS as applicable.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

For L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED
PRASAD SHANBHAG
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
Membership No. A30254

Place: Mumbai
Date: May 17, 2025

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED

NOTICE
(for attention of the members of the Company)

Transfer of Equity Shares to DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Members are hereby informed that pursuant to section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Invest or Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules"), individual intimation letters has been sent by the Company at the latest available address to all the concerned members, whose dividend amounts have remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more, giving them an opportunity to claim the said dividend amounts latest by 19 August 2025. Failure to claim the same would lead to transfer of shares to 'DEMAT account of the IEPF Authority'.

Members are requested to note that final dividend for the financial year ended 31 March 2018 (FY2018) remaining unclaimed, is due for transfer to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), in line with provisions of the Companies Act, 2013, read with the rules made thereunder. However, company will not transfer such shares to IEPF if there is a specific order of the Court/Tribunal restraining any transfer of such shares and payment of dividend or where the shares are hypothecated/ pledged under the Depositories Act, 1996.

Further, Members can also check their status of unclaimed dividend and the shares which may fall due for transfer to 'DEMAT Account of the IEPF Authority' from Investor Relations section on the website of the Company, viz., <https://www.bhil.in/investors.html?url=shareholders-guide-including-iefp-matters>

Furthermore, if no claim for dividend(s) is received by the Company, in terms of the aforementioned statutory provisions, the Company will be constrained to transfer the shares, to 'DEMAT Account of the IEPF Authority'.

It may be noted that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF pursuant to the said Section and Rules.

For further clarifications or assistance, the members may contact KFin Technologies Limited or Company at Email ID: einward.rs@kfinetech.com or investors@bhil.in respectively.

For Bajaj Holdings & Investment Limited
Sd/-
Sriram Subbramaniam
Company Secretary

Place: Pune
Date: 16 May 2025

CIN: L65100PN1945PLC004656
Regd. Office: C/o Bajaj Auto Limited Complex, Mumbai - Pune Road, Akurdi, Pune - 411 035, Maharashtra, India | Tel No.: (020) 7157 6066 | Fax: (020) 7150 5792
Email ID: investors@bhil.in | Website: www.bhil.in

MATRIMONY.COM LIMITED
Regd. Off: No.94, TVH Beliccia Towers, Tower II, 5th Floor, Raja Annamalaiapuram, Chennai - 600028.
Website: www.matrimony.com
CIN: L63090TN2001PLC047432

matrimony.com
bharat matrimony

Sl. No.	Particulars	Extract of statement of Consolidated Audited Financial Results for the quarter and Year ended March 31, 2025 (Rs. Lakhs except for EPS)		
		Quarter ended March 31, 2025 (Audited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)	Quarter ended March 31, 2024 (Audited)
1.	Total Income from Operations	11,961	48,957	12,609
2.	Net Profit for the period (before Tax, and Exceptional items)	1,019	5,782	1,535
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	1,019	5,782	1,535
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	818	4,528	1,173
5.	Total Comprehensive Income for the period	807	4,488	1,155
6.	Equity Share Capital	1,078	1,078	1,113
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet		23,081	
8.	Earnings Per Share (of Rs.5/- each) (For continuing and discontinued operations)			
	1. Basic:	3.79	20.57	5.27
	2. Diluted:	3.79	20.56	5.27

NOTE:

1. The extract of the Audited standalone financial results is as under

Particulars	Quarter ended March 31, 2025 (Audited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)	Quarter ended March 31, 2024 (Audited)
Total Income from operations	11,869	48,553	12,517
Net Profit before tax after exceptional items	1,011	5,726	1,518
Net Profit after tax and exceptional items	817	4,493	1,152

2. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.nseindia.com and www.bseindia.com and Company's website at www.matrimony.com.

3. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee on May 15, 2025 and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 16, 2025 at Chennai.

Scan this QR code for the above results:

Place : Chennai
Date : May 16, 2025

For and on behalf of the Board of Directors of
Matrimony.com Limited,
Murugavel J
Chairman & Managing Director

Vimta Labs Limited
CIN: L24110TG1990PLC011977
Registered Office: 142, IDA Phase II, Cherlapally, Hyderabad - 500051, Telangana, India
Tel:- +91 40 2726 4141; Fax: +91 40 2726 3657
e-mail: shares@vimta.com, website: www.vimta.com

NOTICE FOR THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Notice is hereby given that the Thirty Fifth Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting") of the members of Vimta Labs Limited will be held on **Friday, 06th day of June 2025 at 10.00 a.m.** through Video Conferencing (VC) facility being provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, rules made thereunder and in compliance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020 and General Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024 which permitted holding of AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) on or before 30th September 2025.

Notice of the Meeting setting out the ordinary and special business to be transacted at the meeting together with the Annual Report of the Company for the FY 2024-25 which *inter alia* comprises of Audited Financial Statements for the FY ended 31st March 2025, Auditors and Directors Report thereon, have been sent to the members, whose names appear in the Register of members/depositories as at closing hours of business on **Friday, 09th May 2025**.

The Notice and Annual Report have been sent by e-mail to those members who have registered email address with the Company/Depository Participant(s). Those shareholders who have not registered their email IDs yet, may approach their respective Depository Participants and get their email ID registered with them and may also write to shares@vimta.com with a request to send the notice and annual report by e-mail and the Company will respond on the same.

The Notice of the AGM and the Annual Report along with other details can be accessed from the following links:

Notice of AGM	https://vimta.com/wp-content/uploads/Notice-of-AGM-2025.pdf
Annual Report	https://vimta.com/wp-content/uploads/Annual-Report-2024-25.pdf
TDS related information	https://vimta.com/wp-content/uploads/TDS-on-Dividend-information-to-Shareholders.pdf

For inspection of any document pertaining to the items of business to be transacted at the 35th AGM, the shareholders may write an e-mail to shares@vimta.com and the Company will respond suitably.

The Company has engaged the services of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the Authorized Agency to provide the facilities for remote e-voting, Video Conferencing (VC) as well as e-voting during the meeting as per the aforesaid circulars. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote through electronic voting system on the items set out in the Notice of 35th AGM.

Details of 35th AGM and e-voting are as follows :-

Sl. No.	Event	Day, Date & Time
1	Day, Date and Time of AGM	Friday, 06 th June 2025; 10.00 a.m. (IST)
2	* Cut-off date for e-voting and participation in AGM * Record date for payment of Dividend	Friday, 30 th May 2025
3	Remote e-voting will commence on	Tuesday, 03 rd June 2025; 09.00 a.m. (IST)
4	Remote e-voting will end on	Thursday, 05 th June 2025; 05.00 p.m. (IST)

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date Friday, 30th May 2025, may obtain User ID and password *inter alia* by sending an email request to helpdesk.evoting@cdsindia.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website. If the member is already registered with CDSL for e-voting, he can use his existing User ID and password to recasting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but will not be entitled to cast their vote again. The facility for e-voting during the Meeting will be made available and members attending the Meeting who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to exercise their right to vote during the Meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting from the e-voting system, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact at toll free no. 1-800-21-09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dahi, Sr. Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Marfat Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or an email may be sent to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-62343626) or Ms. Aswari Kalokhe (022-62343624) or Mr. Rakesh Dahi (022-62343611).

By Order of the Board
For Vimta Labs Limited
Sd/-
Sujani Vasireddi
Company Secretary

Place : Hyderabad
Date : 16-05-2025

PUBLIC NOTICE

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificate of ABB India Ltd having its Registered Office at 3rd Floor Plot No. 5 & 6, 2nd Stage, Peenya Industrial Area IV, Bengaluru, Karnataka 560058 registered in the name of Smt Minati Roychowdhury, Shareholder residing at 4A, S.R.Das Road, Kalighat, Kolkata 700026 has been lost by the registered holder(s).

No. of Securities held	Security Certificate No.	Distinctive Nos.	
		From	To
50	137159	29899692	29899741
50	137160	29899742	29899791
50	137161	29899792	29899841
50	137162	29899842	29899891
10	137163	29899892	29899901
10	137164	29899902	29899911
1	137165	29899912	29399912
50	304375	38820449	38820498
10	304376	38820499	38820508
10	304377	38820509	38820518
1	304378	38820519	38820519
1	304379	38820520	38820520
1	304380	38820521	38820521

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates.
Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the company or its Registrar and Transfer Agents KFin Technologies Ltd, Kary Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana, 500032 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.

Place: Kolkata
Date: 13rd May 2025

Minati Roychowdhury

NOTICE

SATISH MANUBHAI SHAH (Deceased) and DILIP M SHAH alias DILIP MANUBHAI SHAH, holding 3 shares of Face Value Rs. 100/- in Bosch Limited (formerly, Motor Industries Company Limited) having its registered office at Hosur Road, Adugudi, Bangalore - 560030 in Folio S02325 bearing Share Certificate Number 00264970 with Distinctive Numbers from 3557896 - 3557898.

I hereby give notice that the said Share Certificate(s) are lost and I have applied to the Company for issue of duplicate Share Certificates and exchange of the same with Face Value Rs.10/- certificate.

The public is hereby warned against purchasing or dealing in anyway with the said Share Certificates. The Company may issue entitlement letter if no objection is received by the Company within 30 days of the publication of this advertisement, after which no claim will be entertained by the Company in that behalf.

Place: Bengaluru
Date: 17.05.2025

SATISH M SHAH
Folio No : S02325

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

NCCL
NATIONAL COMMODITY CLEARING LIMITED
CIN : U74992MH2006PLC163550
Reg. office: Akruti Corporate Park, 1st Floor, L.B.S. Road, Kanjurmarg (West), Mumbai - 400 078
Ph: 91 22 6280 4900 | Fax: 91 22 6280 4901 | Email: contactus@nccl.co.in | Website: <http://www.nccl.co.in>

Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 (Rs. in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		Mar 31, 2025 (Unaudited)	Dec 31, 2024 (Unaudited)	Mar 31, 2024 (Unaudited)	Mar 31, 2024 (Audited)	Mar 31, 2024 (Audited)
1.	Total Income from Operations	518.08	553.02	482.82	2,118.00	2,547.05
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(231.61)	(223.80)	(199.70)	(984.29)	(229.16)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(231.61)	(223.80)	165.50	(984.29)	136.04
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(173.31)	(170.12)	106.21	(739.21)	44.48
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(128.68)	(178.88)	105.26	(720.86)	32.58
6.	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per share)	12,275	12,275	12,275	12,275	12,275
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year #	-	-	-	3,863.41	3,869.43
8.	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) 1. Basic: 2. Diluted:	(0.14)* (0.14)*	(0.14)* (0.14)*	0.09* 0.09*	(0.60) (0.60)	0.04 0.04

*Not Annualised
Note: (a) The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended Financial Results. The full format of the quarter and year ended Financial Results are available on Company's website www.nccl.co.in.
(b) # Includes Company's own contribution towards Core SGF net of withdrawals amounting to Rs. 5,118.20 lakhs (March 31, 2024: Rs. 5,755.89 lakhs) and income earned amounting to Rs. 4,939.75 lakhs (March 31, 2024: Rs. 4,212.42 lakhs) aggregating to Rs. 10057.95 lakhs (March 31, 2024: Rs. 9,968.31 lakhs) for the year ended March 31, 2025.

For National Commodity Clearing Limited
Sd/-
Rajiv Relhan
Managing Director & CEO
(DIN: 07214524)

Place: Mumbai
Date: May 16, 2025



P N GADGIL JEWELLERS LIMITED

(Formerly known as P N Gadgil Jewellers Private Limited)

Registered office: 694, Narayan Peth, Pune, Maharashtra – 411030

CIN: L36912PN2013PLC149288, E-mail Id: secretarial@pngadgil.com

Website: www.pngjewellers.com Tel no: 020-24478474

Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025

The Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2025 ("Financial Results") have been reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on May 15, 2025.

The Financial Results along with the Audit Reports have been posted on the website of the Company at <https://www.pngjewellers.com/pages/investors#financial-results> and can be accessed by scanning the QR Code.



By Order of the Board
Sd/-
Saurabh Gadgil
Managing Director
(DIN: 00616563)

Place: Pune
Date: May 15, 2025

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

REQUEST FOR PROPOSAL

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following :

Sr.No.	Title and Tender ID No.	Bid Due Date
1	[Supply Installation Testing and Commissioning of 33-0.440 KV 6 MVA Sub Station for EV Bus Charging Station] [ASCDCL/2025/452] [2025_ASCDC_1180975_1]	26-May-2025 04:00 PM
2	[Establishment of Chhatrapati Sambhajinar Zoological Park, Chhatrapati Sambhajinagar SH Horticulture Works] [ASCDCL/2025/451] [2025_ASCDC_1180824_1]	27-May-2025 04:00 PM
3	[Supply Installation Testing Commissioning to Passenger Lift for Bus Depot Building] [ASCDCL/2025/433] [2025_ASCDC_1180074_1]	22-May-2025 05:00 PM

The tender documents can be downloaded from <https://www.mahatenders.gov.in>

Sd/-
Chief Executive Officer
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक 703/न.पा.नि./2025 रायगढ़ दिनांक 16.05.2025

II ई-प्रोक्वोरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना II

नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	सि. क्र.	कार्य का विवरण	अनु. लागत राशि रु. (लाख में)	निविदा दाखल करने की अंतिम तिथि
1.	168706	SUPPLY OF PLACEMENT LABOUR HIGH SKILLED - 70, UNSKILLED - 24 FOR WAHAN DEPARTMENT NAGAR NIGAM RAIGARH. (2nd Call)	155.00	03-06-2025
2.	168711	SUPPLY OF PLACEMENT LABOUR SKILLED - 63, UNSKILLED - 34 & SEMI SKILLED - 05 FOR WATER DEPARTMENT NAGAR NIGAM RAIGARH. (2nd Call)	165.00	03-06-2025
3.	168742	CONSTRUCTION OF BT ROAD, DRAIN & INSTALLATION OF STREET LIGHT & POLE FROM RPF OFFICE TO RAILWAY UNDERBRIDGE.	49.78	09-06-2025

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञापन, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्वोरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
न.पा.नि., रायगढ़ (छ.ग.)

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the Share Folio Number UB019089 Share Certificate No. 111712 for 400 ordinary Shares bearing Distinctive number 5310711-5311110 of UNITED BREWERIES LIMITED standing in the name of RAJU SREEDHARAN have been reported lost/stolen and that an application for issue of duplicate share certificate in respect thereof has been made to the society, UB Tower, UB City, 24, Vittalmallya road Bangalore, Karnataka, India - 560001 to whom objection if any, against issuance of such duplicate share certificate should be made within 15 days from the date of publication of this notice. Share Certificate is not mortgaged or any loan taken against flat.

(Please scan this QR Code to view the Prospectus)

VICTORY ELECTRIC VEHICLES INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identification Number: U31909DL2018PLC341184

Our Company was incorporated as 'Victory Electric Vehicles International Private Limited' a private limited company, under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated October 26, 2018 issued by the ROC, Central Registration Centre. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our shareholders in the extra ordinary general meeting held on February 10, 2020 and the name of our Company was changed to 'Victory Electric Vehicles International Limited' and a fresh Certificate of Incorporation dated February 28, 2020 was issued to our Company by the Registrar of Companies, Delhi.

Registered Office: Plot no 6, Second Floor, A-5, Maa Bhagwati Apartment, Paschim Vihar, New Delhi-110063
Contact Person: Bharti Rajput, Company Secretary and Compliance Officer;
Telephone : +91 9643108966; **E-mail:** compliance@victoryevindia.com; **Website:** www.victoryevindia.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY: SANJAY KUMAR POPLI, SEEMA AND PALAK POPLY

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO 56,47,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH (THE "EQUITY SHARES") OF VICTORY ELECTRIC VEHICLES INTERNATIONAL LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹72/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹67/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹4,065.84 LAKHS ("THE ISSUE"), OUT OF WHICH 2,63,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 5/- EACH FOR A CASH PRICE OF ₹72 PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO RS. ₹204.34 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 53,63,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹72/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING OF ₹ 3,861.50 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50 % AND 25.17 % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ATTENTION TO INVESTORS

THIS NOTICE SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH DRAFT PROSPECTUS DATED NOVEMBER 23, 2024 AND PROSPECTUS DATED MAY 14, 2025 FILED WITH REGISTRAR OF COMPANIES (ROC), SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI) AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED AND THE PRE - ISSUE ADVERTISEMENT DATED MAY 14, 2025 PUBLISHED ON MAY 15, 2025. PLEASE NOTE THAT THE INITIAL PUBLIC OFFER WHICH WAS ORIGINALLY SCHEDULED TO OPEN ON MAY 20, 2025 AND CLOSE ON MAY 23, 2025 HAS BEEN POSTPONED DUE TO THE ADMISSION OF A LITIGATION AGAINST OUR COMPANY BEFORE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL. THE COMPANY WILL ANNOUNCE THE UPDATED SCHEDULE SOON.

LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 Corpwis Advisors Private Limited Telephone: +91 -22-49729990 Email: ipo.victory@corpwis.com Contact Person: Mr. Nikunj Kanodia Website: www.corpwis.com	 Maashitla Securities Private Limited Telephone: 011-45121795 Email: jpc@maashitla.com Contact Person: Mr. Mukul Agrawal Website: www.maashitla.com	 Bharti Rajput Telephone: +91 9643108966 Email: compliance@victoryevindia.com Website: www.victoryevindia.com

For and On Behalf of Victory Electric Vehicles International Limited
Sd/-
Sanjay Kumar Popli
Managing Director
DIN: 06984773

Place: Delhi
Date: May 16, 2025

GPT INFRAPROJECTS LIMITED
Registered Office : GPT Centre, JC - 25, Sector - III, Salt Lake, Kolkata - 700 106
CIN - L20103WB1980PLC032872, Website - www.gptinfra.in
Email: gil cosec@gptgroup.co.in, Phone - 033 - 4050 7000

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1 Total Revenue from operations	38,074.34	29,500.49	118,807.14	101,828.38
2 Net Profit before tax from ordinary activities	2,839.51	2,356.00	9,737.53	7,823.57
3 Net Profit after tax from ordinary activities	2,423.55	1,618.86	8,006.83	5,784.39
4 Total Comprehensive Income for the year	2,275.07	868.30	7,465.57	4,375.20
5 Equity Share Capital of face value of ₹ 10/- each	12,636.46	5,817.20	12,636.46	5,817.20
6 Other Equity (Excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-
7 Earnings Per Share (of ₹10/- each) (Not annualised)* - Basic and Diluted	1.93*	1.39*	6.55	4.97

1 Additional information on standalone financial results are as follows : (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
(a) Total Revenue from operations	36,896.51	29,409.81	115,926.49	99,614.68
(b) Profit before taxes from ordinary activities	3,649.85	2,542.78	11,594.82	8,191.90
(c) Profit after taxes from ordinary activities	2,746.59	1,875.01	8,852.16	6,074.27
(d) Total Comprehensive Income for the year	2,727.89	1,854.78	8,833.46	6,054.04

2 The above is an extract of the detailed format of Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website www.gptinfra.in.

3 The Board of Directors of the Company have proposed final dividend @ 10% i.e. ₹ 1.00 per Equity share, subject to approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting. The company has paid interim dividend @ 20% i.e. ₹ 2.00 per Equity share for financial year 2024-25. Total dividend including interim dividend for the financial year 2024-25 is. ₹ 3.00 per Equity share on face value of ₹ 10 per share.

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
D. P. Tantia
Chairman
DIN - 00001341

Place : Kolkata
Date : May 16, 2025

INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd. Office: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244 713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)
Phones: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535
Email: compliance.officer@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com • CIN: L24111UR1983PLC009097

Audited Financial Results for the Quarter & Year ended March 31, 2025

(₹ In Crore, except as stated)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended		Year Ended			Quarter Ended		Year Ended		
		31.03.2025 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)		31.03.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations	2,189.59	2,429.58	2,041.22	9,052.37	7,944.50	2,190.24	2,429.83	2,043.73	9,053.50	7,947.27
2	Profit before interest, depreciation and Tax (EBDITA)	145.24	129.98	109.79	521.34	423.48	147.53	129.48	109.23	525.49	428.09
3	Net profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	68.12	58.45	51.13	241.78	202.05	70.41	57.94	50.56	245.92	206.65
4	Net profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	68.12	58.45	51.13	241.78	202.05	81.79	71.42	55.60	292.32	223.31
5	Net profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	50.35	43.84	37.74	180.38	151.73	64.02	56.81	42.21	230.92	172.99
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	49.37	43.88	37.82	179.51	151.92	63.26	56.39	42.07	229.62	172.80
7	Equity Share Capital	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96
8	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	-	1,840.08	1,685.34	-	-	-	2,224.92	2,020.06
9	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualised) - Basic & Diluted (In ₹)	16.26	14.16	12.19	58.26	49.01	20.68	18.35	13.63	74.58	55.87

Note:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchanges Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: <https://www.indiaglycols.com/financial-information/>). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.
- The Board of directors have recommended a dividend @ ₹ 10/- per share of face value of ₹10/- each subject to the approval of the members of the Company at its ensuing Annual General Meeting.



Place : Noida
Date : 16th May, 2025

for INDIA GLYCOLS LIMITED
Sd/-
U.S. BHARTIA
Chairman and Managing Director
DIN: 00063091



ASPIRA PATHLAB & DIAGNOSTICS LIMITED

CIN: - L85100MH1973PLC289209

Reg. Office: Flat No.2, R.D. Shah Building, Shradhdhanand Road, Opp. Railway Station, Ghatkopar (W.), Mumbai -400086
Corporate Off: 6 & 7, Bhaveshwar Arcade, Near Shreyas Junction LBS Marg, Behind Saraswat Bank, Ghatkopar (W), Mumbai-40008
Email ID: info@aspiradiagnostics.com, Website: www.aspiradiagnostics.com

Extract of Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the fourth quarter & year ended March 31,2025

(Rupees in Lakhs)

Sr No	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter Ended		Year Ended			Quarter Ended		Year Ended		
		31.03.2025 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)		31.03.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1.	Revenue from operations	577.67	540.74	381.79	2199.90	1320.49	577.67	540.74	-	2199.90	-
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	72.33	37.66	(50.26)	207.26	(267.22)	72.33	37.66	-	207.26	-
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	72.33	37.66	(50.26)	207.26	(267.22)	68.06	30.61	-	202.26	-
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	72.33	37.66	(50.26)	207.26	(267.22)	68.06	30.61	-	202.26	-
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period(after tax) and other Comprehensive Income(after tax)	72.37	37.66	(43.75)	207.30	(260.71)	68.10	30.61	-	202.31	-
6.	Equity Share Capital	1029.30	1029.30	1029.30	1029.30	1029.30	1029.30	1029.30	-	1029.30	-
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic:	0.70	0.37	(0.49)	2.01	(2.60)	0.66	0.30	-	1.97	-
	Diluted:	0.70	0.37	(0.49)	2.01	(2.60)	0.66	0.30	-	1.97	-

Note:

- The above is an extract of the detailed format of audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Fourth Quarter/ Year ended March 31,2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Fourth Quarter/ Year ended March 31,2025 is available on the website of the BSE Limited and also on the Company's website:- www.aspiradiagnostics.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on May 16, 2025.

For and on behalf of the Board
For Aspira Pathlab & Diagnostics Limited

Sd/-
Nikunj Mange
Executive Director
DIN: 08489442

Place:- Mumbai
Date:- May 16, 2025



